



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।
प्रेस नोट

दिनांक- 12.09.2022

दिनांक-12.09.2022 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा ATM मशीन के पैसा निकलने वाले स्लाईडर पर उसी कलर की पट्टी लगाकर ग्रहकों का पैसा चोरी करने वाले अभियुक्त 1. दिवाकर गिरी 2. जयहिन्द यादव को गिरफ्तार कर 17000 रुपये बरामद किया गया।

दिनांक 12.09.2022 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिरी सूचना पर मु0अ0सं0 0318/2022 धारा 380/420/411 भादवि के अभियुक्तगण 01. दिवाकर गिरी पुत्र सकलदेव गिरी निवासी ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष 02. जयहिन्द यादव पुत्र मुन्सी यादव निवासी रसीदाबाद थाना जियनपुर जिला आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को दुर्गाकुंड मन्दिर से कुछ दुरी पर आनन्द पार्क के पास से समय 06.55 बजे दिनांक 12.09.2022 पर गिरफ्तार किया गया तथा चोरी के 17000 रुपये नगद बरामद किया गया। जिसके विरुद्ध भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान – दिनांक 12.09.2022 समय करीब 06.22 बजे दुर्गाकुंड मन्दिर से कुछ दुरी पर आनन्द पार्क के पास के पास थाना भेलूपुर वाराणसी।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

01. दिवाकर गिरी पुत्र सकलदेव गिरी निवासी ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।
02. जयहिन्द यादव पुत्र मुन्सी यादव निवासी रसीदाबाद थाना जियनपुर जिला आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी विवरण:-

- 17000 रुपये नगद।

पूछताछ विवरण:-

- बरामद नोटों के बारे में पूछने पर दोनो अभियुक्तगण बता रहे हैं कि दिनांक 9.9.2022 को बैंक आफ इण्डिया रविन्द्रपुरी ATM से हम दोनो लोग चोरी किये है जो 500-500 की नोट हम लोगो के पास से बरामद हुई है वह इसी ATM की है हम लोग ATM मशीन के पैसा निकलने वाले स्लाईडर पर उसी कलर की पट्टी लगा दिये थे और जब ग्राहक पैसा निकाल रहा था तो रुपया नहीं निकलता था क्योंकि स्लाईडर ATM मशीन की नहीं खुलती थी ग्राहक के जाने के बाद हम लोग स्लाईडर हटाकर पैसा ATM से चोरी कर लेते थे। इस प्रकार ग्राहको को धोख देकर कई बार में हम लोग इसी ATM मशीन से सत्रह हजार रुपया जो पाँच पाँच सौ के नोट है। चोरी किये है बाकी सौ सौ की नोट हम लोगो के नीजी खर्चे का है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 आनन्द कुमार चौरसिया चौकी प्रभारी दुर्गाकुण्ड थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 प्रमोद चौहान थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. का0 कुन्दन कुमार गौड़ थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।